

**DIPLOMA IN WATERSHED MANAGEMENT  
(DWM)**

**Term-End Examination**

**December, 2015**

**BNRI-106 : HORTICULTURE AND AGRO-  
FORESTRY SYSTEM**

*Time : 2 hours*

*Maximum Marks : 50*

---

*Note : Attempt any five questions. All questions carry equal marks.*

---

- |    |   |                                     |
|----|---|-------------------------------------|
| 1. | (a) How the plant growth regulators help in the development of fruit plants ? Describe with examples.                             | 5                                   |
|    | (b) Write the names of five aromatic plants grown in our country.   | 5                                   |
| 2. | (a) What do you understand by "Sustainable Collection of Medicinal Plants" ?  | 5                                   |
|    | (b) What is the concept of Natural Resource Survey ? Explain the scope of natural resource survey with reference to agroforestry. | 5                                   |
| 3. | Write short note on the following :   | <b><math>2 \times 5 = 10</math></b> |
|    | (a) Blanching   |                                     |
|    | (b) Marketing Channels  |                                     |
|    | (c) Preservatives   |                                     |
|    | (d) Squash  |                                     |
|    | (e) Pectin  |                                     |

- |    |   |   |
|----|---|---|
| 4. | (a) Describe the concept of Participatory Rural Appraisal (PRA).  | 3 |
|    | (b) Describe the features of different types of nurseries ?   | 5 |
|    | (c) Define Fermentation.  | 2 |
| 5. | (a) What are the factors affecting marketing of fruits and vegetables ? Describe in detail.                       | 5 |
|    | (b) Discuss Cooperative marketing system of fruits and vegetables.  | 5 |
| 6. | (a) Explain environmental benefits of agroforestry system.  | 5 |
|    | (b) What are common methods of drying of fruits and vegetables ? Discuss the sun drying of fruits and vegetables. | 5 |
| 7. | (a) Describe four criteria used for classification of agroforestry systems.                                       | 5 |
|    | (b) Discuss the concept of low energy Green house with suitable examples.   | 5 |
-

## जलसंभरण प्रबंधन में डिप्लोमा ( डी.डब्ल्यू.एम. )

सत्रांत परीक्षा

दिसम्बर, 2015

बी.एन.आर.आई.-106 : उद्यानिकी और कृषिवानिकी तंत्र

समय : 2 घंटे

अधिकतम अंक : 50

नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

---

1. (a) फलों के पौधों के विकास में पौधों की वृद्धि प्रवर्तक कैसे मदद करते हैं ? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 5  
(b) हमारे देश में उगने वाले किन्हीं पाँच सुगंधीय पौधों के नाम लिखिए। 5
  
2. (a) औषधीय पौधों के स्थायी संग्रह से आप क्या समझते हैं ? 5  
(b) प्राकृतिक संसाधन सर्वेक्षण की अवधारणा क्या है ? कृषि वानिकी के संदर्भ में प्राकृतिक संसाधन सर्वेक्षण के कार्यक्षेत्र (scope) की व्याख्या कीजिए। 5
  
3. निम्नलिखित पर लघु नोट लिखिए : 2x5=10  
(a) विरंजक  
(b) विपणन माध्यम  
(c) परिरक्षक  
(d) स्क्वाश  
(e) पेकिटन

4. (a) ग्रामीण सहभागिता मूल्यांकन (पी.आर.ए.) की अवधारणा 3  
का वर्णन कीजिए।
- (b) विभिन्न प्रकार की नर्सरीयों की विशेषताओं का वर्णन 5  
कीजिए।
- (c) किण्वन को परिभाषित कीजिए। 2
5. (a) फलों एवं सब्जियों के विपणन को प्रभावित करने वाले 5  
कारक क्या हैं, सविस्तार वर्णन कीजिए।
- (b) फलों और सब्जियों की सहकारी विपणन प्रणाली की 5  
चर्चा कीजिए।
6. (a) कृषिवानिकी के पर्यावरणीय लाभों का वर्णन कीजिए। 5
- (b) फलों और सब्जियों को सुखाने के सामान्य तरीके क्या 5  
हैं? फलों और सब्जियों को धूप में सुखाने की विधि की  
चर्चा कीजिए।
7. (a) कृषिवानिकी प्रणालियों के वर्गीकरण के लिए इस्तेमाल 5  
किए जाने वाले चार मानदण्डों का वर्णन करें।
- (b) कम ऊर्जा ग्रीन हाउस (हरित गृह) की अवधारणा की 5  
उपयुक्त उदाहरण के साथ चर्चा कीजिए।